

-:प्रेस नोटदिनांक 10.06.2021:-

थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

थाना फरीदपुर पर पंजीकृत वाहन चोरियों के मुकदमों की घटनाओं का अनावरण कर मौके से दो गाडियाँ एक ईको गाडी नं0 यूपी 24 क्यू 8734, एक ERTIGA कार नं0 यूपी 70 सीपी 2372, दो कोडिंग मशीन, एक चाबी कटिंग मशीन, गाडियों के शीशा तोड़ने वाले औजार 03 अदद, पिलास व पेंचकस एव विभिन्न गाडियों की 22 अदद चाबियाँ बरामद कर दो अभियुक्त गण किये गये गिरफ्तार।

दिनांक 30.05.2021 को थाना हाजा पर वादी इमरान खान पुत्र बहरोज अनवर खान नि0 आर0के0 फार्मैसी बुखारा रोड कस्वा व थाना फरीदपुर जिला बरेली द्वारा लिखित सूचना दी गयी थी कि रात्रि उसके मकान के आगे खडी स्वीफ्ट डीजायर गाडी सं0 यूपी 25 बीयू 2996 अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली गयी है। तथा प्रेम कुमार गुप्ता पुत्र गंगादीन गुप्ता नि0 बुखारा रोड कस्वा व थाना फरीदपुर जिला बरेली द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि उसके घर के पास खडी उसकी नयी ईको गाडी अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली गयी है। इस सम्बन्ध में क्रमशः मु0अ0सं0 250/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात व मु0अ0सं0 254/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुये। जिनकी विवेचना उ0नि0 राजकुमार के सुपुर्द की गयी। अभियोग की गहन विवेचना के दौरान मुखबिरो की सूचना के आधार अभियुक्त गण 1. बलबन्त सिंह पुत्र सुरजीत सिंह नि0 319/5 गोल्डन ग्रीन पार्क थाना बारादरी जिला बरेली 2. प्रवेश वर्मा पुत्र राजेन्द्र नि0 किलाखेडा उझानी बाईपास जिला बदायुं 3. शेरू पुत्र बिजेन्द्र नि0 जमा रोड अलीगढ़ 4. मोनू उर्फ हेमन्त पुत्र गुलशन कुमार नि0 6-ब्लाक गीता कालोनी थाना गीता कालोनी दिल्ली के नाम प्रकाश में आये। इनके मोबाइल नं0 प्राप्त कर सीडीआर प्राप्त की गयी। जिसके आधार पर उपरोक्त अभियुक्त गण की घटना के समय घटनास्थल के आस पास उपस्थिति होना ज्ञात हुयी। इस आधार पर उपरोक्त अभियुक्त गण गहन तलाश व पतारसी व सुरागरसी प्रारम्भ की गयी। दिनांक 09/10.06.21 की रात्रि में विवेचक उ0नि0 राजकुमार मय हमराही फोर्स के विवेचना मुकदमा उपरोक्त तथा तलाश वांछित अपराधी गण में मामूर थे। तब मुखबिर की सूचना के आधार पर फरीदपुर बाईपास से भुता को जाने वाले रोड पर समय करीब 02.45 बजे अभियुक्त गण 1. बलबन्त सिंह पुत्र सुरजीत सिंह 2. प्रवेश वर्मा पुत्र राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। मौके से शेरू तथा मोनू उर्फ हेमन्त भागने में सफल रहे। मौके से एक ईको कार नं0 यूपी 25 क्यू 8734 तथा एक Ertiga कार नं0 यूपी 70 सीपी 2372 तथा कोडिंग मशीन, चाबी कटिंग मशीन व गाडियाँ चोरी करने में प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न औजार तथा गाडियों की 22 चाबियाँ बरामद की गयी। उपरोक्त अभियुक्त गण ने पूछताछ के दौरान बताया कि कस्वा फरीदपुर से चोरी की गयी ईको गाडी व स्वीफ्ट डीजायर को उनके साथी शेरू व मोनू उर्फ हेमन्त दिल्ली बेचने के लिए ले गये है। गाडी किस को बेची जानी है, यह जानकारी नहीं है। मु0अ0सं0 180/21 धारा 379 भादवि की घटना में चोरी गयी पिकअप गाडी को भी चोरी किया जाना बताया गया। जिसकी बिक्री के पैसे जो इनके हिस्से में आये थे, खर्च किये जाने बताये गये। उपरोक्त अभियुक्त गण द्वारा थाना बारादरी, थाना इज्जतनगर, थाना कैट बरेली से विभिन्न दिनांकों में विभिन्न गाडियाँ चोरी किये जाना बताया गया है तथा बरामदगी ईको गाडी दिल्ली से चोरी किया जाना बताया गया। जिसके नम्बर प्लेट व चैसिस नम्बर में बदलाव होना पाया गया है। इसी प्रकार ERTIGA गाडी के चैसिस नं0 स्पष्ट नहीं है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 278/21 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया है। उक्त घटनाओं के अनावरण व अभियुक्त गण की गिरफ्तारी में बरेली SOG टीम व सर्विलांस टीम का सहयोग रहा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. बलबन्त सिंह पुत्र सुरजीत सिंह नि0 319/5 गोल्डन ग्रीन पार्क थाना बारादरी जिला बरेली
2. प्रवेश वर्मा पुत्र राजेन्द्र नि0 किलाखेडा उझानी बाईपास जिला बदायुं

गिरफ्तारी का स्थान व समय

बाईपास से भुता को जाने वाले रोड पर समय करीब 02.45 बजे

फरार अभियुक्तगण का नाम व पता

- 1.शेरू पुत्र बिजेन्द्र नि0 जमा रोड अलीगढ़
- 2.मोनू उर्फ हेमन्त पुत्र गुलशन कुमार नि0 6-ब्लाक गीता कालोनी थाना गीता कालोनी दिल्ली

थाना फरीदपुर पर पंजीकृत अभियोगो का विवरण

- 1.मु0अ0सं0 278/21 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भादवि
- 2.मु0अ0सं0 250/21 धारा 379 भादवि
- 3.मु0अ0सं0 254/21 धारा 379 भादवि
- 4.मु0अ0सं0 180/21 धारा 379 भादवि

बरामदगी का विवरण

- 1.एक ईको गाडी नं0 यूपी 24 क्यू 8734
- 2.एक ERTIGA कार नं0 यूपी 70 सीपी 2372
- 3.दो कोडिंग मशीन, एक चाबी कटिंग मशीन
- 4.गाडियों के शीशा तोडने वाले औजार 03 अदद, पिलास व पेंचकस
- 5.विभिन्न गाडियों की 22 अदद चाबियाँ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 श्री राजकुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली
- 2.उ0नि0 श्री नवीन कुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली
- 3.हे0का0 834 अर्जुन सिंह थाना फरीदपुर जिला बरेली
- 4.हे0का0 793 सत्यवीर सिंह थाना फरीदपुर जिला बरेली
- 5.का0 85 शिवकुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली
- 6.का0 1543 हिमांशु गुप्ता थाना फरीदपुर जिला

(सुरेन्द्र सिंह पचौरी)
प्रभारी निरीक्षक
थाना फरीदपुर, बरेली।

